



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आश्विन 1938 (शा०)

(सं० पटना ८१०) पटना, बुधवार, ५ अक्टूबर 2016

## श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

30 सितम्बर 2016

एस०ओ० 251, दिनांक 5 अक्टूबर 2016—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा—५ के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा—३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार—राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची—१(ब)के स्तंभ—२ में अकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित / पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची—१(ब) के स्तंभ—०२ में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची—१(अ) के स्तंभ—०१ के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा—२ के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित अनुसूची १(अ) के स्तम्भ—०४ में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

## अनुसूची—१ (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001—100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960—100)
जनवरी, 2016	269	4.63 X 4.93	6140.16
फरवरी, 2016	267	4.63 X 4.93	6094.51
मार्च, 2016	268	4.63 X 4.93	6117.34
अप्रैल, 2016	271	4.63 X 4.93	6185.81
मई, 2016	275	4.63 X 4.93	6277.12
जून, 2016	277	4.63 X 4.93	6322.77
योग :—			37137.71
औसत :—			37137.71 ÷ 6 = 6189.61

## अनुसूची—१ (ब)

- अनुसूचित नियोजन का नाम— घरेलू कामगार, अधिसूचना संख्या—२७८२, २७८३ तिथि २८.०९.२०११ गजट संख्या— ५६० दिनांक २९.०९.२०११

## अनुसूची-II

क्र0 सं0	कामगारों की कोटि (अकुशल श्रेणी)	निर्धारित न्यूनतम मजदूरी + दिनांक 01.04.2012+01.10.2012+ 01.04.2013+ 01.10.2013+01.04.2014+01.10.2014 + 01.04.2015+01.10.2015+01.04.2016 से लागू परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक 01.10.2016 से प्रभावी होगी	दि0 01.10. 2016 से लागू कुल मजदूरी की दरें (संभ 3+4)
1	2	3	4	5
1	बरतन धोना (प्रति घंटा)	430.00+22.00+18.00+33.00+25.00 +22.00+05.00+26.00+8.00 +26.00 = 615.00	9.00	624.00 प्रतिमाह
2	कपड़ा धोना/ बरतनधोना (प्रति घंटा)	430.00+22.00+18.00+33.00+25.00 +22.00+05.00+26.00+8.00+26.00 = 615.00	9.00	624.00 प्रतिमाह
3	बरतन धोना/कपड़ा धोना एक हजार स्काव्यर फीट में पोछा लगाना (प्रति घंटा)	430.00+22.00+18.00+33.00+25.00 +22.00+05.00+26.00+8.00+26.00 = 615.00	9.00	624.00 प्रतिमाह
4	कपड़ा धोना/बरतन धोना/पोछा लगाना एवं बच्चों की देखभाल करना (08 घंटा)	3433.00+172.00+144.00+262.00 +201.00+182.00+35.00+206.00 +68.00 +206.00 = 4909.00	69.00	4978.00 प्रतिमाह
5	कपड़ा धोना/बरतन धोना पोछा लगाना/बच्चों की देखभाल करना /बच्चों को स्कूल पहुँचाना एवं वापस लाना तथा अन्य घेरेलु विविध कार्य करना । (08 घंटा)	3433.00+172.00+144.00+262.00 +201.00+182.00+35.00+206.00 +68.00 +206.00 = 4909.00	69.00	4978.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के संभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/

पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जनवरी-जून, 2016 के औसत के आधार पर अक्टूबर, 2016 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छ : महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(सं0 5/एम0डब्लू0-401/07श्र0सं0-4181)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार नं0-1,

सरकार के अवर सचिव।

30 सितम्बर 2016

एस0ओ0 252, एस0ओ0 251, दिनांक 5 अक्टूबर 2016 का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं0 5/एम0डब्लू0-401/07श्र0सं0-4182)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार नं0-1,

सरकार के अवर सचिव।

*The 30<sup>th</sup> September 2016*

S.O. 251 dated the 5<sup>th</sup> October 2016—In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

#### SCHEDULE -1 (A)

Month & Year	Index NO Base Year ( 2001-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year ( 1960-100)
1	2	3	4
January,2016	269	4.63 X 4.93	6140.16
February,2016	267	4.63 X 4.93	6094.51
March,2016	268	4.63 X 4.93	6117.34
April,2016	271	4.63 X 4.93	6185.81
May,2016	275	4.63 X 4.93	6277.12
June,2016	277	4.63 X 4.93	6322.77
<b>Total</b>			<b>37137.71</b>
<b>Average :-</b>			<b>37137.71 ÷ 6 = 6189.61</b>

#### SCHEDULE -1 (B)

1- Name of Employment :- **Domestic Workers**

Notification No:- 2782, 2783 date 28.09.2011

Gazette No. - 560 dated 29.09.2011

**SCHEDULE -II**

<b>Sl. No</b>	<b>Categories of Worker</b>	<b>Minimum Wage Fixed + V.D.A from 01.04.2012 + 01.10.2012+01.04.2013 + 01.10.2013+01.04.2014 + 01.10.2014+01.04.2015 +01.10.2015+01.04.2016 (In.Rs.)</b>	<b>Amount of V.D.A which is effective from the date- 01.10.2016</b>	<b>Total rates of wages effective from the date 01.10.2016 (Column 3+4)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Washing the utensils (Per hour)	430.00+22.00+18.00+33.00+ 25.00+22.00+05.00+26.00+8.00 +26.00 = 615.00	9.00	624.00 Permonth
2	Washing the clothes/ washing the Utensil (Per hour)	430.00+22.00+18.00+33.00+25.00 +22.00+05.00+26.00+8.00+26.00 = 615.00	9.00	624.00 Permonth
3	Washing the clothes/ washing the utensil house keeping (A. House of 1000 Sq. ft.) (Per hour)	430.00+22.00+18.00+33.00+25.00 +22.00+05.00+26.00+8.00+26.00 = 615.00	9.00	624.00 Permonth
4	Washing the cloths/ washing the utensils House Keeping and looking after the children (Eight hours)	3433.00+172.00+144.00+262.00 +201.00+182.00+35.00+206.00 +68.00 +206.00 = 4909.00	69.00	4978.00 Permonth
5	Washing the cloths/ washing the utensils House Keeping and looking after the children/ and taking to school and back other miscellaneous domestic works. (Eight hours)	3433.00+172.00+144.00+262.00 +201.00+182.00+35.00+206.00 +68.00 +206.00 = 4909.00	69.00	4978.00 Permonth

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components .

But even if the Index falls below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of Variable Dearness Allowance on the basis of average index of **January-June, 2016** will be payable at the aforesaid rates from **October, 2016** and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumers Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No. 5/M.W.- 401/07 L&R - 4181)

By the order of the Governor of Bihar,

Arun Kumar No.-1,

*Under Secretary to Government.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 810-571+100-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>